



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 21 फरवरी, 2022 से शुरू करते हुए पब्लिक को वॉक-इन (बिना मुलाकात बुक किए फैसिलिटीज में आना) की अनुमति दे रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 फरवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सोमवार 21 फरवरी, 2022 को, वॉक-इन (बिना मुलाकात बुक किए आना) की अनुमति देने के लिए, फैसिलिटीज को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने की तैयारी कर रही है।

सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

सिटी हॉल की वॉक-इन सेवाएं

सिटी हॉल (City Hall), निवासियों के लिए सिटी की सेवाओं तक पहुंचने हेतु, सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा। अब मुलाकातें बुक करना जरूरी नहीं है। हालांकि अब भी मुलाकातों की बुकिंग उपलब्ध होगी, फिर भी वॉक-इन की अनुमति होगी। मुलाकातें [यहां \(here\)](#) बुक की जा सकती हैं।

सिटी फैसिलिटी रेंटल्स

रेक्रिएशन सेंटर रेंटल्स अब, बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। जगह बुक करने के लिए, 905.874.BOOK (2665) पर फोन करें।

सर्विस ब्रैम्पटन

निवासी, सेवाओं का निवेदन करने और रेक्रिएशन रजिस्ट्रेशन, पार्किंग टिकट भुगतानों और गैर-नकदी टैक्स भुगतानों सहित, कई अलग-अलग ट्रांजैक्शन्स पूरी करने के लिए, सर्विस ब्रैम्पटन (Service Brampton) की जगहों पर, बिना मुलाकात बुक किए सुविधाजनक तरीके से जा सकते हैं। इन जगहों पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक स्वीकार किए जाएंगे।

दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, सर्विस ब्रैम्पटन तक पहुंचने के चार सुविधाजनक तरीके हैं:

- ऑनलाइन 311Brampton.ca पर जाएं
- ऐप स्टोर या Google Play पर 311 ब्रैम्पटन (311 Brampton) ऐप डाउनलोड करें
- ब्रैम्पटन सिटी की सीमाओं के अंदर 311 (सिटी की सीमाओं के बाहर से 905.874.2000) डायल करें
- 311@brampton.ca पर ईमेल करें

घंटों और जगहों के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।



काउंसिल चेम्बर्स में वापसी

21 फरवरी से शुरू करते हुए, काउंसिल के मेम्बर व्यक्तिगत अटेंडेंस के लिए वापस लौट सकते हैं। अधिक से अधिक पांच मेम्बर व्यक्तिगत तौर पर और बाकी मेम्बर घर से ही हिस्सा लेंगे। समय बीतने पर यह संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सभी 11 मेम्बर, व्यक्तिगत मीटिंग्स के लिए वापस लौट आएंगे।

इस समय, पब्लिक को घर से ही हिस्सा लेना जारी रखने की सलाह दी जाती है। पब्लिक व्यक्तिगत अटेंडेंस दुबारा कब शुरू होगी, इस बारे में अधिक विवरण आने वाले महीनों में साझे किए जाएंगे।

मास्क

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी ने अपने ब्रैम्पटन कोविड-19 आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) को, 1 अप्रैल, 2022 तक आगे बढ़ा दिया है।

कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी है। स्कार्फ, बंदन्स, नेक गेटर्स या नेक वार्मर्स और एक्सलेशन वाल्वस वाले मास्क, चेहरा ढकने के स्वीकार्य रूप नहीं हैं। इसके अलावा बाइ-लॉ के अंतर्गत, मास्कों को खानपान के लिए केवल तब ही हटाया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए नियत क्षेत्र में बैठा हो।

सिटी, वायरस को फैलने से रोकने हेतु मदद करने के लिए, शारीरिक दूरी रखने, अच्छी तरह सफाई रखने और मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाना जारी रखने के लिए निवासियों का धन्यवाद करती है।

लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 संबंधी प्रोग्रामिंग और सेवा के बारे में अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [QR कोड वाला एन्हेन्सड कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट और वेरिफाई ओनटैरियो ऐप \(Enhanced COVID-19 Vaccine Certificate with QR Code and Verify Ontario App\)](#)
- [कोविड-19 से खुद की और दूसरों की सुरक्षा करना \(COVID-19 Protecting yourself and others\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccines\)](#)



Service and Information Update

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca